



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2089]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 2012/आश्विन 27, 1934

No. 2089]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2012/ASVINA 27, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2527(अ).—औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6 तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमवाली, 1945 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री सुब्रत कुमार रे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एनएसक्यूईडी), केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता को पूरे भारत के लिए निदेशक, प्रभारी केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता के रूप में उस पद का उनके द्वारा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 1-10-2012 (पूर्वाह्न) से उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख तक अथवा उस पद पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति के प्रभार लेने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित श्रेणियों के औषधों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री के भेजे गए नमूनों की जांच एवं विश्लेषण के सांविधिक प्रमाण-पत्रों तथा उक्त नियमवाली के प्रपत्र 1 पर हस्ताक्षर करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

- (1) सीरा
- (2) इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीन का घोल
- (3) वैक्सिन
- (4) टॉक्सिन
- (5) एंटीजन
- (6) एंटीटॉक्सिंस
- (7) विसंक्रमित शल्य चिकित्सीय पट्टी एवं विसंक्रमित सीवन
- (8) बैक्टीरियोफेज
- (9) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए सीरा-रोधी
- (10) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए वैक्सिन
- (11) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए टॉक्सॉयड
- (12) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए नैदानिक एंटीजन
- (13) बीडीआरएल एंटीजन
- (14) अंतः गर्भशयी युक्तियां तथा फैलोप रिंग
- (15) मानव रक्त तथा मानवरक्त उत्पाद

- (16) ह्यूमन इम्युनोडिफिसियंशी वाइरस, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन तथा हेपेटाइटिस सी वाइरस के लिए रक्त समूहीकरण रिएजेंट तथा नैदानिक किट
- (17) कंडोम

[फा. सं. सी-12011/3/1999-डी/डीएफक्यूसी]

सुदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

S.O. 2527(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), and Rule 8 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby authorises Shri Subrata Kumar Ray, Senior Scientific Officer (NSQED), Central Drug Laboratory, Kolkata to sign statutory certificates of test and analysis on the samples of drugs and cosmetics sent by the Courts of Law under sub-section (4) of Section 25 of the said Act and in Form 1 of the said Rules as the Director in-charge of the Central Drug Laboratory, Kolkata for the whole of India with effect from the date of his assumption of additional charge of that post, that is 1-10-2012 (FN) till the date of his superannuation or till the regularly appointed person takes charge of the post or until further orders, whichever is earlier, in respect of the following classes of drugs, namely :—

All classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely :—

- (1) Sera
- (2) Solution of Serum Proteins intended for injection
- (3) Vaccines
- (4) Toxins
- (5) Antigens
- (6) Anti-toxins
- (7) Sterilized surgical ligature and sterilized suture
- (8) Bacteriophages
- (9) Anti-Sera for Veterinary use
- (10) Vaccines for Veterinary use
- (11) Toxoids for Veterinary use
- (12) Diagnostic Antigens for Veterinary use
- (13) VDRL Antigen
- (14) Intra-Uterine Devices and Falope Rings
- (15) Human Blood and Human Blood Products
- (16) Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C Virus
- (17) Condoms

[F. No. C-12011/3/1999-D/DFQC]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.